



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 पौष 1937 (श0)  
(सं0 पटना 4) पटना, मंगलवार, 5 जनवरी 2016

---

सं0 कारा/नि0 (प्रोबेशन)—01/2015—7570  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग

संकल्प  
22 दिसम्बर 2015

स्व0 मृत्युंजय कुमार, तत्कालीन प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, बेगुसराय सम्प्रति मृत (दिनांक 30.09.2015) के विरुद्ध “बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 में अंतर्निहित प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 869 दिनांक 06.02.2015 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही का एतद् द्वारा निस्तार किया जा रहा है।

स्व0 कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 9 (2) में विहित प्रावधानों के तहत कारा निरोध की तिथि दिनांक 13.02.2014 के प्रभाव से विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 99 दिनांक 14.03.2014 के द्वारा निलम्बित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 12.08.2014 को जमानत पर रिहा होने के फलस्वरूप स्व0 कुमार के द्वारा दिनांक 14.08.2014 को योगदान समर्पित किया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या 08 दिनांक 06.01.2015 के द्वारा स्व0 कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 के आलोक में निलम्बन से मुक्त करते हुए योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत कर प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, बेगुसराय के पद पर पदस्थापित किया गया।

स्व0 कुमार द्वारा पहली पत्नी के जीवित रहते अवैध तरीके से दूसरी शादी सरकारी पद पर रहते हुए किया गया। उनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम-3 तथा 23 (i) एवं (ii) के प्रावधानों के घोर उल्लंघन तथा सरकारी सेवकों के आचरण के प्रतिकूल होने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 869 दिनांक 06.02.2015 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया था।

चूँकि स्व0 कुमार दिनांक 31.08.2015 को सेवानिवृत्त हो चुके थे। अतएव विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5335 दिनांक 07.09.2015 के द्वारा उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञापांक 869 दिनांक 06.02.2015) को दिनांक 01.09.2015 के प्रभाव से बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना का पत्रांक 1487/स्था0 दिनांक 07.10.2015 के द्वारा संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के द्वारा स्व0 कुमार के विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

स्व0 मृत्युंजय कुमार, सेवानिवृत्त प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी की मृत्यु दिनांक 30.09.2015 को हो गयी। उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-11 (2) में अंतर्निहित प्रावधानों के तहत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाता है :-

(i) स्व0 कुमार की निलम्बन की तिथि (दिनांक 13.02.2014) तथा सेवानिवृत्ति की तिथि (दिनांक 31.08.2015) के बीच की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर मानी जायेगी एवं उनके परिवार को उस अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन-निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते का समायोजन कर लिया जायेगा।

(ii) स्व0 कुमार की मृत्यु दिनांक 30.09.2015 को हो जाने के कारण उनके विरुद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञापांक 869 दिनांक 06.02.2015) को औचित्यहीन होने के आलोक में बंद किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राजीव वर्मा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 4-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>